

be objected to if he met such a smuggler. But, a journalist cannot be objected to because he has two personalities just as I have two personalities—one as Speaker and the other as a journalist. I hope you will not object if I also go to meet such people!

**PROF. MADHU DANDAVATE:** You have defended the freedom of the journalists.

**SHRI S. M. BANERJEE:** Mr. Speaker, Sir, before I put the question, I do not mind even if you meet Mr. Haji Mastan as a journalist. But, my question is this. From the news paper it appears that in the last one month or after re-shuffling, arrests of smugglers have been minimised if not completely stopped. I would like to know whether all the smugglers have been arrested. If not, whether Government is likely to arrest more

**SHRI C. SUBRAMANIAM:** Whatever action is necessary that is being taken. It is wrong to insinuate that after the change of the portfolio, steps that are being taken against the smuggling activities are slackened in any way. On the other hand, it is being pursued more ruthlessly.

**MR. SPEAKER:** This Haji Mastan question has taken us forty-five minutes.

पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किये जाने के लिये चुने हुए स्थानों का सर्वेक्षण

\* 351. श्री महावीरपक सिंह शाक्य : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किये जाने वाले चुने हुए स्थानों का सर्वेक्षण शुरू हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI SURENDRA PAL SINGH):** (a) and (b). The Department of Tourism undertakes from time to time various types of surveys for determining (i) the quantum and nature of facilities to be provided at tourist centres, (ii) the physical planning of the area/centre proposed for development, (iii) the potential of a place as a tourist attraction.

Recently the master plan of Manali was prepared with a view to determining and locating facilities to be provided, and for ensuring a regulated growth of the centre so that its natural beauty is not spoilt. Similar master plans are under preparation for a few selected places of archaeological interest. Such physical planning of selected centres will be taken up each year of the Fifth Plan.

A survey on the accommodation requirements at important tourist centres in the Southern and Western regions and at Delhi has been completed. This survey will be extended to the Northern and Eastern regions as well.

A survey to assess tourist preferences for entertainment at Delhi and Agra has been completed. Another survey on the shopping pattern of international tourists at Delhi, Agra, Jaipur, Varanasi and Bombay has also been completed. These two surveys may also be extended to other important tourist centres.

श्री महावीरपक सिंह शाक्य : मन्त्री जी ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि पर्यटन केन्द्रों का समय समय पर सर्वेक्षण होता जा रहा है। तो श्री जी आप ने सर्वेक्षण की बात कही है इस से पहले जो सर्वेक्षण हुआ क्या उस में पर्यटन केन्द्रों की उन बातों की ओर भी आप का ध्यान आकर्षित किया गया जिस में खजुराहो और आगरा की बात कही गई है। और यदि उस में इन पर्यटन केन्द्रों के सम्बन्ध

में कुछ तथ्य आप के सामने पेश किये गये हैं तो मुख्य-मुख्य तथ्य क्या हैं ?

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** जैसा मैंने जवाब में कहा है कि यह सर्वे तो होते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं। जहां तक खजुराहो का सवाल है हमने सर्वे करने के बाद 10 साइट्स ऐसी सेलेक्ट की हैं जो डेवलप करनी हैं और उसमें से खजुराहो का मंदिर भी है।

**श्री महादीपक सिंह शाक्य :** प्रथम जो सर्वेक्षण हुआ आप की रिपोर्ट के अनुसार उसमें बताया गया है कि आगरा के अन्दर देश में आने वाले पर्यटकों में से एक तिहाई वहां जाते हैं और उन की आवासीय व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। और इस से पहले जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें कहा गया है कि खजुराहों में पर्यटकों को जल नहीं मिलता है ? तो इन दोनों व्यवस्थाओं की तरफ आप क्या कदम उठा रहे हैं, और कितनी शीघ्र इन को पूरा करायेंगे ?

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** कभी न कभी सर्वे द्वारा जो कमियां मालूम होती हैं उनको हम जल्दी पूरा करने का कोशिश करते हैं, खजुराहो में होटलों की कमी थी वह पूरा की जा रही है। तो जो शिकायतें आयी हैं उनको दूर किया जाय और जो कमियां हैं वे पूरी हो जायें यह हम कोशिश करते हैं।

**SHRI BISHWANATH ROY:** May I know whether a big religious place like Pavanagar in Deoria district in U.P. is being included in the survey at present?

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** अध्यक्ष महोदय, अगर अलग-अलग जगहों के नाम माननीय सदस्य कहेंगे तो मेरे लिये कहना मुश्किल होगा। मैंने कहा कि 10 साइट्स को डेवलप करने की बात हमने तय कर ली है।

**SHRI SYED AHMED AGA:** Is the Government intending to place Srinagar on the international route of

Air India so that people who come on a short visit would also be able to visit Srinagar? Why I am asking this question is for this reason. If tourists come on short visit to this country, they do not have time to go to Kashmir. Suppose we place Srinagar on Air India routes to United Kingdom, or on Moscow-Delhi route, it will enable them to do so.

**THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI RAJ BAHADUR):** We have been receiving such suggestions. The fact of the matter is that Srinagar is very well served by Indian Airlines and all the tourists who want to go to Srinagar are amply looked after.

#### **Crisis in Handloom/Powerloom Industry**

\*355. **SHRI PURUSHOTTAM KAKODKAR:**  
**SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN:**

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the crisis prevailing in handloom/powerloom industry today resulting in huge unemployment;

(b) if so, the reasons for this crisis; and

(c) the steps taken to meet this situation?

**THE MINISTER OF COMMERCE (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA):** (a) and (b). Some reports have been received of difficulties faced by the handloom and powerloom weavers regarding cutback in production and/or closure of handloom and powerlooms resulting in some hardship.

(c) Does not arise.

**SHRI PURUSHOTTAM KAKODKAR:** Is it a fact that the Government has set up a High power com-